



# HAMIRPUR POLICE



दिनांक-07/01/2021

थाना ललपुरा

## हत्या का अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि श्री रस्सन पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम परसनी थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर के द्वारा थाना ललपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी कि इनके पारिवारिक फूफू के लड़के नकी हैदर को मेरे गांव परसनी में (ननिहाल में) जमीन मिली है जिसके सिलसिले में यहाँ आते जाते रहते थे। दिनांक 04.01.2021 को सायं नकी हैदर के मामू पारिवारिक भाई लवी मेंहदी पुत्र अब्बास मेंहदी ने नकी हैदर के सिर पर कई बार वार कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना ललपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-02/21 धारा-302 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा थाना ललपुरा पुलिस को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 06/01/2021 को थाना ललपुरा पुलिस द्वारा घटना के नामजद वांछित अभियुक्त लवी मेंहदी पुत्र अब्बास मेंहदी निवासी परसनी थाना ललपुरा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी बरामद हुआ।

## घटना का विवरण:-

गिरफ्तार आरोपी लवी द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया गया कि घटना के तीन चार माह पहले मृतक नकी हैदर को जमीन जो ननिहाल ग्राम परसनी में मिली है, के सम्बन्ध में आये थे तो मेरी उनसे कुछ कहा-सुनी हुई थी परन्तु वह जब इस बार घटना के चार-पांच दिन पहले आये तो मैंने गलती की माफी मांगी थी और अक्सर शाम सुबह इनके साथ रहता था। घटना के दिन भी मैं अपनी बकरियों को जंगल से चराकर घर पर बांधने के बाद बकरी चराने वाला डंडा लेकर शाम को रस्सन के घर गया जहाँ नकी हैदर मौजूद थे, उनको साथ लेकर मोराकांदर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में नकी हैदर ने कहा कि यह रास्ते की जमीन मेरे हिस्से की है जिस पर लवी ने कहा कि गांव का कोई आदमी नहीं कह रहा है और आपके पास कागज पत्र भी है नहीं, इस बात पर नाराज होकर नकी हैदर ने लवी को मां की गाली दे दी जिस पर नाराज होकर लवी द्वारा हाथ में लिये डंडे से नकी हैदर के सिर पर चोट पहुंचाई गई और गिरने के उपरांत भी कई डंडा मारने से मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना के उपरांत खून से लगा डंडा लेकर गांव से होता हुआ अपने घर के पास बेतवा नदी के करार पर स्थित बबूल के जंगल में छिपा कर भाग गया था। आरोपी के निशांदाही पर थाना ललपुरा पुलिस द्वारा खून लगा हुआ आलाकल्ल डंडा बरामद किया गया।

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष ललपुरा दुर्ग विजय सिंह
2. उ0नि0 योगेश कुमार शुक्ला
3. का0 अभिनव प्रताप सिंह
4. का0 अनुज कुमार
5. का0 सत्री शर्मा

